



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1179) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

10 जुलाई 2015

सं० 1208—श्री बिक्रमादित्य चतुर्भुज महादेव मन्दिर, कम्मन छपरा, वैशाली, जिला—वैशाली पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—3916 है। यह एक ऐतिहासिक गुप्तकालीन शिव मन्दिर है, जिसमें विशाल चतुर्मुख शिव लिंग स्थापित है। स्थानीय भक्तों द्वारा एक समिति का गठन कर यहाँ एक भव्य मन्दिर का निर्माण कराया जा रहा है। मन्दिर निर्माण कार्य में पर्षद द्वारा भी 15 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। यद्यपि न्यास के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर गठित न्यास समिति द्वारा एक नियमावली तैयार की गई थी, किन्तु पर्षद द्वारा उसको मान्यता नहीं दी गई है।

चूंकि यह ऐतिहासिक महत्व का प्राचीन मन्दिर है, अतः इसके जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण एवं इसके सुचारु प्रबंधन, संरक्षण तथा संचालन के लिए अधिनियम की धारा—32 के तहत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन के लिए न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं० 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री बिक्रमादित्य चतुर्मुख महादेव मन्दिर, वैशाली की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री बिक्रमादित्य चतुर्मुख महादेव मन्दिर न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री बिक्रमादित्य चतुर्मुख महादेव मन्दिर न्यास समिति, वैशाली” होगा।
2. श्री बिक्रमादित्य चतुर्मुख महादेव मन्दिर एवं इसकी समग्र चल—अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार न्यास समिति में निहित होगा।
3. न्यास समिति श्री बिक्रमादित्य चतुर्मुख महादेव मन्दिर के जीर्णोद्धार कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और एक निश्चित समयावधि में इसे पूरा करेगी।
4. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

5. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
6. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी ।
7. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, वार्षिक बजट अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
10. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई हो तो, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
11. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
12. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
14. न्यास समिति न्यास के किसी भू-खंड का अन्य संक्रमण या अन्य किसी भी तरह हस्तान्तरण नहीं करेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1) श्री रामसेवक राम, पिता-स्व० भिखारी राम, ग्राम+पो०-वैशाली,	वैशाली	—	अध्यक्ष
(2) श्री लखिन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम-रोहना, वैशाली		—	उपाध्यक्ष
(3) श्री हरिहर प्रसाद सिंह, पिता-स्व० महावीर सिंह		—	सचिव
(4) श्री संजय कुमार सिंह, पिता-स्व० ऋषिकेश सिंह		—	उप सचिव
(5) श्री राज किशोर राय, वैशाली		—	कोषाध्यक्ष
(6) श्री राजगीर राय, पिता-स्व० चुल्हाई राय		—	सदस्य
(7) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-स्व० महेन्द्र सिंह		—	सदस्य
(8) श्री रीतलाल राय, पिता-स्व० ब्रह्मदेव राय		—	सदस्य
(9) श्री सामंत कुमार, पिता-स्व० नीतीश्वर प्रसाद सिंह		—	सदस्य
(10) श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, पिता-स्व० रामलखन सिंह, नया टोला, वैशाली		—	सदस्य
(11) श्री शशिभूषण, पिता-स्व० जगदेव प्रसाद सिंह		—	सदस्य

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और न्यास समिति का कार्यकाल 05 वर्षों का होगा ।

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1179-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>